



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682]
No. 682]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2009/अग्रहायण 6, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2009/AGRAHAYANA 6, 1931

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2009

सं. 175/2009-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 850(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उपधारा (2), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2) तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93क और 94 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 627(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 103/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 29 अगस्त, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश:-

कथित अधिसूचना में, -

(i) क्रम संख्या (19) के बाद 'टिप्पणियां एवं शर्तें' शीर्षक के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामश:-

"(20) कथित अनुसूची में दर सूची मद 711301 एवं 711302 के समक्ष निर्धारित प्रतिअदायगी की दरें, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 27 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं.1/2009-14 द्वारा प्रकाशित क्रियाविधि पुस्तिका (खंड-I), 2009-14 के पैरा 4ए.12 में यथा विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क गृहों के माध्यम से केवल एयरफ्रेट, डाक पार्सल अथवा कूरियर से आयातित माल पर, सोने/चांदी के आभूषणों में सोने/चांदी की गुणवत्ता और मात्रा का सुनिश्चय करने के लिए सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता/अधीक्षक (आभूषण विशेषज्ञ) द्वारा

जांच के बाद लागू होगी। किसी प्राधिकृत कूरियर के माध्यम से किसी पारेषण का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य बीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगा।

(21) कथित अनुसूची में दर सूची मद 711301 एवं 711302 के समक्ष निर्धारित प्रतिअदायगी की दरें संगत निर्यात एवं आयात नीति या भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति की किसी योजना के समक्ष, जिसमें सोने/चांदी के स्थानीय स्रोत से शुल्क मुक्त आयात/पुनर्भरण/प्रापण का प्रावधान है, निर्यात बाध्यताएं पूरी करने के लिए विनिर्मित या निर्यातित माल पर लागू नहीं होगी।”

(ख) अनुसूची में,-

(i) अध्याय 64 में, दर सूची मद 640311 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित दरसूची मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः -

"640311	धातु के सुरक्षात्मक टो-कैप के साथ लेदर सेफ्टी फुटवीयर	जोड़ी	10.5%	175	2%	33
640399	अन्य		1%		1%"	

(ii) अध्याय 70 में, दर सूची मद 70139990 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित दर सूची मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, नामशः-

"70139991	मर्तबान, सुगंध की बोतलें, कैंडल प्लेट/ कोस्टर्स/वोटिव, लोशन की बोतल/सोपडिश, सजावटी गोले/सितारे/घंटियां	कि.ग्रा.	9.4%	43	शून्य"	
-----------	--	----------	------	----	--------	--

(iii) अध्याय 71 में, टैरिफ मद 7113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित दर सूची मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः-

"7113	कीमती धातु की या कीमती धातु से ढके धातु के आभूषण और उनके पुर्जे					
711301	सोने से बने आभूषण एवं उसके बने पुर्जे	ग्राम	आभूषण में निहित (.995 या अधिक शुद्धता) प्रति ग्राम निवल सोने पर 20.60रू.		आभूषण में निहित (.995 या अधिक शुद्धता) प्रति ग्राम निवल सोने पर 20.60 रू.	
711302	चांदी से बने आभूषण एवं उसके बने पुर्जे	कि. ग्रा.	आभूषण में निहित (.999 या अधिक शुद्धता) प्रति किलो ग्राम निवल चांदी पर 1,030/- रू.		आभूषण में निहित (.999 या अधिक शुद्धता) प्रति किलो ग्राम निवल चांदी पर 1,030/- रू.	
711399	अन्य		शून्य		शून्य"	

(iv) अध्याय 83 में, दर सूची मद 830603 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित दर सूची मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः,

"830603	लोहे और इस्पात के	कि.ग्रा.	12.5%	20.2	1%	1.6
830604	एलुमिनियम के	कि.ग्रा.	9.1%	37.2	1%	4
830699	अन्य	कि.ग्रा.	9%	9	1%	1"

(v) अध्याय 94 में, दरसूची मद 940505 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित दर सूची मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, नामशः-

940506	मुख्यतः ग्लास के लालटेन/दीपक	कि.ग्रा.	9.4%	43	शून्य"	
--------	------------------------------	----------	------	----	--------	--

(vi) अध्याय 95 में, दर सूची मद 95069962 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित दर सूची मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, नामशः-

"95069963	लकड़ी के राऊंडर्स बैट	प्रति	11%	44	11%	44"
-----------	-----------------------	-------	-----	----	-----	-----

[फा. सं. 609/67/2009-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 103/2008-सीमा-शुल्क (गै.टै.) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), दिनांक 29 अगस्त, 2008 में सा.का.नि. 627(अ) में प्रकाशित की गयी थी तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. 8(अ), दिनांक 2 जनवरी, 2009 के तहत अधिसूचना सं. 2/2009-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 जनवरी, 2009 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2009

No. 175/2009-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 850(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and section 93A and sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), and in pursuance of rules 3 and 4 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.103/2008-Customs (N.T.), dated the 29th August, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 627 (E) dated the 29th August, 2008, namely:-

In the said notification, -

(a) under the heading 'Notes and Conditions', after serial number (19), the following shall be inserted, namely, -

“(20) The drawback rates prescribed in the said Schedule against tariff items 711301 and 711302 shall apply only to goods exported by airfreight, post parcel or authorised courier through the Custom Houses as specified in para 4A.12 of the Hand Book of Procedures (Vol. I), 2009-14 published vide Public Notice No.1/2009-14 dated 27th August, 2009 of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, after examination by the Customs Appraiser/Superintendent (Jewellery Expert) to ascertain the quality of gold/silver and the quantity of net content of gold/silver in the gold/silver jewellery. The Free on Board (FOB) value of any consignment through authorised courier shall not exceed rupees twenty lakhs.

(21) The drawback rates prescribed in the said Schedule against tariff items 711301 and 711302 shall not be applicable to goods manufactured or exported in discharge of export obligation against any scheme of the relevant Export and Import Policy or the Foreign Trade Policy of the Government of India which provides for duty free import/replenishment/procurement from local sources of gold/silver.”

(b) in the Schedule, -

(i) in Chapter 64, for the tariff item 640311 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely:-

“640311	Leather safety footwear with protective metal toe-cap	pair	10.5%	175	2%	33
640399	Others		1%		1%”	

(ii) in Chapter 70, after tariff item 70139990 and the entries relating thereto, the following tariff item and the entries shall be inserted, namely:-

“70139991	Jars, Perfume Bottles, Candle Plate/Coasters, Votive, Lotion Bottle/Soap Dish, Ornamental Spheres/Stars/Bells	Kg.	9.4%	43	Nil”	
-----------	---	-----	------	----	------	--

(iii) in Chapter 71, for tariff item 7113 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely:-

“7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal					
-------	---	--	--	--	--	--

711301	Articles of jewellery and parts thereof, made of gold	Gms.	Rs.20.60 per gram of net gold content (.995 or more purity) in the jewellery		Rs.20.60 per gram of net gold content (.995 or more purity) in the jewellery	
711302	Articles of jewellery and parts thereof, made of silver	Kg.	Rs. 1,030/= per kg of net silver content (.999 purity) in the jewellery		Rs.1,030/= per Kg of net silver content (.999 purity) in the jewellery	
711399	Others		Nil		Nil	

(iv) in Chapter 83, for the tariff item 830603 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely,-

"830603	of iron and steel	Kg.	12.5%	20.2	1%	1.6
830604	of aluminium	Kg.	9.1%	37.2	1%	4
830699	Others	Kg.	9%	9	1%	1"

(v) in Chapter 94, after tariff item 940505 and the entries relating thereto, the following tariff item and the entries shall be inserted, namely:-

"940506	Lanterns/Lamps predominantly of glass	Kg	9.4%	43	Nil"	
---------	---------------------------------------	----	------	----	------	--

(vi) in Chapter 95, after tariff item 95069962 and the entries relating thereto, the following tariff item and the entries shall be inserted, namely:-

4322GT/09-2

"95069963	Rounder's bat, Wooden	piece	11%	44	11%	44"
-----------	--------------------------	-------	-----	----	-----	-----

[F. No. 609/67/2009-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Note : The principal notification No. 103/2008-Customs (N.T.) was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 627(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 29th August, 2008 and was last amended by notification No. 2/2009-Cus. (N.T.) dated 2nd January, 2009, *vide* number G.S.R. 8(E), dated 2nd January, 2009.